

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

**असाधारण**  
**EXTRAORDINARY**

**भाग I—खण्ड I**  
**PART I—Section I**

**प्राधिकार से प्रकाशित**

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं० 13] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 1978/पौष 27, 1899  
No. 13] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 1978/PAUSA 27, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

**वित्त मंत्रालय**  
(आर्थिक कार्य विभाग)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1978

संख्या एफ. 2(23)-एन.एस./77.—भारत सरकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की 16 अक्टूबर, 1973 की अधिसूचना संख्या एफ 3(11)-एन.एस/72 के पैरा 1, जिसमें बाद में संशोधन कर दिया गया था, के अनुसार इनाम देने के लिए आठवां डा 31 जनवरी, 1978 को सत्यमूर्ति आडिटीरियम, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली, में निकाला जाएगा। इस डा में उन्ही लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने डाकघर के बचत बैंक में अपने-अपने खातों में कम से कम दो सौ रुपये की ऐसी रकम जमा कर रखी है जिस पर अप्रैल 1977 से सितम्बर 1977 तक ब्याज लगेगा। इस डा को निकालना प्रातः 10 बजे शुरू होगा और यह काम भारत सरकार की देख-रेख में होगा। इसके लिए भारत सरकार ने एक समिति बनायी है जो इस प्रकार है :—

1. श्री विजय कुमार मल्होत्रा,  
संसद सदस्य (लोक-सभा), नई दिल्ली।

अध्यक्ष

- |   |            |
|---|------------|
| 2. श्री इमदाद साबरी,<br>उप महापौर, दिल्ली ।   | सदस्य      |
| 3. श्रीमती शैलजा चन्द्र,<br>वित्त सचिव, दिल्ली ।  | सदस्य      |
| 4. श्री. एन. के. सूद,<br>अध्यक्ष, श्रम कार्यालय,<br>दिल्ली कलाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड,<br>दिल्ली । | सदस्य      |
| 5. श्री. जे. एन. गंजू,<br>प्रधानाचार्य, डी.टी.ई.ए.<br>उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,<br>नई दिल्ली ।              | सदस्य      |
| 6. श्री. आर्इ. डी. शुकल,<br>संयुक्त राष्ट्रीय बचत आयुक्त, नागपुर ।  | सदस्य-सचिव |
- कै. एन. राव, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Economic Affairs)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 1978

**No. F. 2(33)-NS/77.**—In pursuance of para 1 of the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs No. F. 3(11)-NS/72 dated the 16th October 1973, as amended subsequently, the Eighth Draw for the award of prizes to be decided by draw of lots from among account-holders in the Post Office Savings Bank, who have kept a balance of not less than Rs. 200, which qualified for interest during the period from April, 1977 to September, 1977, will be held on the 31st January, 1978 at the Satyamurthi Auditorium, Mandir Marg, New Delhi. The Draw will commence at 10 A.M. and will be held under the supervision of the Government of India. For this purpose the Government of India have constituted a Committee as follows :—

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Shri Vijay Kumar Malhotra,<br>Member of Parliament (Lok Sabha),<br>New Delhi.                    | Chairman         |
| 2. Shri Imdad Sabri,<br>Dy. Mayor, Delhi.   | Member           |
| 3. Mrs. Sailaja Chandra,<br>Finance Secretary, Delhi.   | Member           |
| 4. Shri N. K. Sood,<br>Chief of Labour Bureau,<br>Delhi Cloth and General Mills Co. Ltd.,<br>Delhi. | Member           |
| 5. Shri J. N. Ganju, Principal,<br>D.T.E.A. Higher Secondary School,<br>New Delhi.                  | Member           |
| 6. Shri I. D. Shukla,<br>Jt. National Savings Commissioner,<br>Nagpur.                              | Member-Secretary |
- K. N. ROW, Jt. Secy.